Annual Performance Appraisal Report in respect of INAS officers. तक की अवधि के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट Performance Appraisal Report for the period from खण्ड ।- मूल सूचना Section I - Basic Information प्रशासनिक प्रभाग/स्थापना अनुभाग द्वारा भरा जाए (To be filled in by the Administration Division/Establishment Section) 1. उस अधिकारी का नाम जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है Name of the officer reported upon: 2. जन्म तिथि 3. वर्तमान ग्रेड 4. वर्तमान नियुक्ति Date of Birth: Present Grade: Present appointment: 5. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तारीख Date of appointment to present post: 6. क्या अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग का है Whether the officer belongs to SC/ST/OBC: 7. सरकारी सेवा में लगातार नियुक्ति की तारीख Date of continuous appointment in Govt. Service : 8. वर्तमान स्थापना/यूनिट में कार्य ग्रहण करने की तारीख Date of joining the present Establishment/Unit: 9. रिपोर्टिंग, पुनरीक्षण और स्वीकार करने वाले अधिकारी Reporting, Reviewing and Accepting Authorities नाम और पद Name & Designation कार्य अवधि Period worked रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting Authority पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing Authority स्वीकार करने वाला अधिकारी Accepting Authority 10. Period of absence on leave, etc. छुट्टी आदि पर अनुपस्थिति की अवधि अवधि Period टिप्पणी Remark किरम Туре अवकाश पर (किस्म विनिर्दिष्ट करें) On Leave (specify type) अन्य (विनिर्दिष्ट करें Others (specify) 11. वे प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें उपस्थित हुए Training Programs attended दिनांक दिनांक संस्थान Institute विषय Subject से/Date तक/Date to from प्रशासनिक/कार्मिक विभाग की ओर से हस्ताक्षर Signature on behalf of दिनांक : Admn/Personnel Dept

आई एन ए एस अधिकारियों के संबंध में वर्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

Annexure I

Date :

खण्ड 2 –स्य मूल्यांकन Section II – Self Appraisal

	DELCONORMAN CONTRACTOR		
gallent site majoritessas iris			

2.(अं) कार्य के जो लक्ष्य/उददेश्य/ध्येय आपने स्वयं अपने लिए निर्धारित किए हों, या आपके लिए निर्धारित किए गए हों उन (परिणाम मात्रा या अन्य रूप में) कार्यों की आठ-दस मदें प्राथमिकता के आधार पर बनाएं और हरेक लक्ष्य की दृष्टि से अपनी उपलब्धि बताएं ।

2.A Please specify targets/objectives/goals (in quantitative or other terms) of work set for yourself or that were set for you, eight to ten items of work in the order of priority, and your achievements against each target.

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH

7		
	3	
2(ब) कृप्या वि	निर्घारित लक्ष्य और अभिलेखन, सूचकांकन, और फाइलों की छंटाई, गार्ड फाइलों, अनुमागीय नोट बुक तथा अन्य रजिस्ट	
रखरखाव, स	गिठन तथा प्रबंधन और अन्य विवर्णियों आदि के प्रस्तिकरण के संबंध से किए गए कार्य की सावए (4400) जाए कर रेप	:श क वितन
2B Please s	शल आधकारिया के लिए लागू) का संक्षिप्त विवरण दें	
mes, manie	enance of Guard Files, Sectional Note Book and other registers, furnishings of O&M and other returns etc for officers drawing grade pay upto Rs 6,600).	ut or
3A Please st	r 2 में बताए गए लक्ष्य/उद्देश्य/व्येयों की प्राप्ति में रही कमियों का संक्षेप में उल्लेख करें। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई बाघाएं रही हो र state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets.	
3A Please st	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets (phicethronic and a second to be the con-	
3A Please st	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets (phicethronic and a second to be the con-	
3A Please st	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets (phicethronic and a second to be the con-	
3A Please st	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets (phicethronic and a second to be the con-	
3A Please st	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets (phicethronic and a second to be the con-	
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in Item 2. Please spec if any, in achieving the targets.	
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3.A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in Item 2. Please spec if any, in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3.A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3.A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify
3A Please st constraints, i	state, briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please spec if any, in achieving the targets. Please spec if any in achieving the targets.	ify

4. कृप्या उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता महसूसकरते है

Please indicate specific areas in which you feel the need to upgrade your skills through training programs.

वर्तमान समानुदेशन के लिए

For the current assignment:

आपके भावी करियर के लिए

For your future career

5. कृप्या बताएं कि क्या पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष की अचल सम्पत्ति संबंधी वार्षिक विवरणी नियत तारीख अर्थात् कलैण्डर वर्ष के बाद के 31 जनवरी तक दाखिल कर दी गई थी। यदि नहीं, तो विवरणी दाखिल करने की तारीख दी जाए।

5. Please state whether the annual return on immoveable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31st January of the year following the calendar year. If not, the date of filing the return should be given.

उस अधिकारी के हस्ताक्षर जिसकीरिपोर्ट लिखी जा रही है Signature of officer reported upon___

दिनांक:

Date:

र्ण रिपोर्टकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन Appraisal by Reporting Authority

कप्पा रिपॉटगत अधिकारी द्वारा आपवादिक योगदान के दावे (बदि किया गया है) के संबंध में टीका टिप्पणी करें । ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. ब्बा रिपॉर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफतवाएं आई हैं ? यदि हो तो कृप्पा तथ्यात्मक व्योरे : s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual alls.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्योरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्योरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्योरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृष्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्योरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
ease comment on the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	n the claim (if made) of exceptional contribution by the officer reported upon. कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृष्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृष्या तथ्यात्मक ब्यौरे s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
क्या रिपोर्टगत अधिकारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे is the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	कारी के सामने अपने कार्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असफलताएं आई हैं ? यदि हां तो कृप्या तथ्यात्मक ब्यौरे दे। rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual ails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual tails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
s the officer reported upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual tails.	rted upon met with any significant failures in respect of his work? If yes, please furnish factual
Paul आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ?	शरा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ?
ह्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? you agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
ह्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? you agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
म्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? /ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
म्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? /ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
म्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? /ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
चा आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? You agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
चा आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? ou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
त्या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? you agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	तरा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
या आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? you agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
था आप अधिकारी द्वारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? rou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	ारा पहचान की गई कौशल उन्नयन आवश्यकताओं से सहमत हैं ? e skill up-gradation needs as identified by the officer?
rou agree with the skill up-gradation needs as identified by the officer?	e skill up-gradation needs as identified by the officer?

				5 8 20 8 2
ess	ात किया जाना चाहिए। इस अनुभाग की वरीयता 40 % होगी । sment of work output (This assessment should rate the officer vis-à- ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers	vis his peers ar , with 1 referrin	nd not the gene g to the lowest	ral grade and
ess	mant of work output (This assessment should rate the officer vis-à-	, with a referrin	g to the lowest	grade and
ess	ment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-i ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers	, with Trelemin	पुनरीक्षण	पुनरीक्षण
sess	ment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-i ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers	, with a referrin	g to the lowest	पुनरीक्षण
sess	ment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-i ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers	, With 1 relemin रिपोर्टिंग अधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of
sess	ment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-i ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing
sess	ement of work output (This assessment should rate the officer vis-à-ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers e best grade. Weightage to this Section will be 40%).	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of
sess	sment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers e best grade. Weightage to this Section will be 40%). पर्वनियोजित कार्य की परिपर्णता/विषय के आधार पर आबंटित किया गया कार्य	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing
sess	ement of work output (This assessment should rate the officer vis-à-ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers e best grade. Weightage to this Section will be 40%).	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing
sess	ement of work output (This assessment should rate the officer vis-à-ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers e best grade. Weightage to this Section will be 40%). पूर्वनियोजित कार्य की परिपूर्णता/विषय के आधार पर आबंदित किया गया कार्य Accomplishment of planned work/WORK allotted as per subjects	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing
i i	sment of work output (This assessment should rate the officer vis-à-ion. Grades should be assigned on a scale of 1-10, in whole numbers e best grade. Weightage to this Section will be 40%). पूर्वनियोजित कार्य की परिपूर्णता/विषय के आधार पर आवंटित किया गया कार्य Accomplishment of planned work/WORK allotted as per subjects allotted	, with 1 relection रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing

7. व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन (1-10 के पैमाने पर इस भाग का 30% होगा)
Assessment of Personal Attributes (on a scale of 1-10. Weightage to this Section will be 30%)

Accomplishment of exceptional work / unforeseen tasks performed

निर्गत कार्य पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण Overall Grading on 'Work Output'

		रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting Authority	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing Authority	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing Authority
i	कार्य की अभिवृत्ति Attitude to work			
li	जिम्मेदारी का बोध Sense of responsibility			1000
iii	अनुशासन का अनुरक्षण Maintenance of Discipline			
iv	संपेषण क्षमताएं Communication skills			
V	नेतृत्व गुण Leadership qualities		E to the second	1 2 6 3 3 3 3 3 2
Vi	दल की भावना में काय करने की क्षमता Capacity to work in team spirit			
vii	समय सीमा में र्काय करने की क्षमता Capacity to work in time limit			
viii	समग्र छवि एवं व्यक्तित्व Inter - personal relations			
	व्यक्तिगत विशेषताओं पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण			
	Overall Grading on Personal Attributes			

8. प्रकायित्मक सक्षमता का मूल्यांकन (1–10 के पैमाने पर इस भाग का महत्व 30% होंगा)
Assessment of Functional Competency (on a scale of 1-10. Weightage to this Section will be 30%).

		रिपोर्टिंग अधिकारी Reporting Authority	पुनरीक्षण अधिकारी Reviewing Authority	पुनरीक्षण अधिकारी के आधक्षर) Initial of Reviewing Authority
i	नियम/विनिमय/कार्य एवं योग्यता के क्षेत्र में प्रक्रियाएं एवं उनके सही प्रयोग की जानकारी Knowledge of rules/Regulations/procedures in the area			
	of function and ability to apply them correctly.			1
li	नितिबद्व योजना बनाने की क्षमता Strategic planning ability			
iii	निर्णय लेने की क्षमता Decision making ability			
lv	समन्वय क्षमता Coordination ability			
V	अधीनस्थ को प्रेरित एवं विकसित करने की क्षमता to motivate and develop subordinates.			
	प्रकार्यात्मक सक्षमता पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण Overall Grading on 'Functional competency'			

9. कृप्या बताएं कि क्या रिपोर्टगत अधिकारी ने नियत समय के भीतर पूर्व रिपोर्ट वर्ष के संबंध में उसके अधीन कार्यरत ग्रेड 'क' और 'ख' वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों को पूरा कर दिया है या नहीं । Indicate whether the officer reported upon has comple APARs of Gr 'A' & 'B' officers working under him, in respect of the previous reporting year, within the stipulated tim					rted upon has complete	
					o reporting your, mile	mir the dipulated time.
						Tracket M

10. सत्यनिष्ठा Integrity अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर टीका टिप्पणी करें Please comment on the integrity of the officer

i)	सन्देह से परे Beyond doubt
ii)	चूंकि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण है इसलिए गोपनीय टिप्पणी संलग्न है।
	Since the integrity of the officer is doubtful, a secret note is attached.
iii)	निश्चित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय तक अधिकारी के कार्य को नहीं देखा गया परन्तु अधिकारी के बारे में मुझे किसी प्रतिकूल बात की रिर्पोट नहीं की है ।
	Not watched the officer's work for sufficient time to form a definite judgment but nothing adverse has been reported to me about the officer.

	8	
उपलब्धियां, महत्वपूर्ण असफलताओं के संवर्भ भाग- 2 का 3 (उ	की तस्वीर (लगभग 100 शब्दों में लिखें) जिसमें सामर्थ्य क्षेत्र असाधारण अ) एवं (ब) एवं दुर्बल वर्गों के प्रति अभिवृती शामिल हों। nt (in about 100 words) on the overall qualities of the rengths and his attitude towards weaker sections.	
	o sala est et eu eus estat participa estat iba esta 17 40 to esta un	
12. समग्र ग्रेड (1-10 के पैमाने पर)		
12. समग्र ग्रेड (1-10 के पैमाने पर) Overall grade (on a score of 1-10)		
12. समग्र ग्रेड (1–10 के पैमाने पर) Overall grade (on a score of 1-10)		
12. समग्र ग्रेड (1–10 के पैमाने पर) Overall grade (on a score of 1-10)		
12. समग्र ग्रेड (1-10 के पैमाने पर) Overall grade (on a score of 1-10)	रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10)	रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
12. समग्र ग्रेड (1-10 के पैमाने पर) Overall grade (on a score of 1-10) तारीख: Date:	रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10)	रिपोर्टिंग अधिकारी के इस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10)	रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10)	रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	रिपोर्टिंग अधिकारी के इस्ताक्षर Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	
Overall grade (on a score of 1-10) तारीख : Date:	Signature of Reporting Authority	

खण्ड 4-Section IV -

समीक्षा प्राधिकारी द्वारा समीक्षा Review by Reviewing Authority

1. क्या आप भाग-3 में निर्गत कार्य तथा विभिन्न गुणों के संबंध में प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत हैं ? क्या आप एम ओ एस /अधिकारी की असाधारण उपलब्धियों और/ या महत्वपूर्ण असफ्लताओं के संबंध में किए गए मृत्यांकन से सहमत हैं। यदि आप प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा दिए गए गुणों की किसी संख्यात्मक मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं। कृप्या उस भाग में दिए गए स्तंम में अपना मूल्यांकन अमिलिखित करें और प्रविष्टियों को आधक्षरित करें । Do you agree with the assessment made by the reporting officer with respect to the work output and the various attributes in section III? Do you agree with the assessment of the reporting officer in respect of extraordinary achievements and/or significant failures of the MoS / officer reported upon? (In case you do not agree with any of the numerical assessments of attributes please record your assessment in the column provided for you in that section and initial your entries). हाँ Yes नहीं No 2. मतभेद होने की दशा में उसके लिए व्यौरे और कारण बताएं। In case of difference of opinion details and reasons for the same may be given. 3. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा लिखे गए शब्द चित्र पर टिप्पणी, यदि कोई हो । Comments, if any, on the pen picture written by the Reporting Authority. 4. कृप्या इस बात को विशेष रूप से बताएं कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते समय रिपोर्टिंग अधिकारी का दृष्टिकोण निष्पक्ष और न्यायोचित रहा हैं। Please indicate specifically whether the attitude of the Reporting Officer in assessing the performance of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe officer has been fair and just.

	*	
	10	
	place Suggest Suggestion and the contract of the	
5. समग्र ग्रेड (1–10 के पैमाने पर) Overall grade on a scale of 1-10		
	नरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Reviewing Authority	
तारीख:	A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE	
Date:		

स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकृति Acceptance by Accepting Authority (खण्ड – 5) Section V

1.क्या आप रिपोर्टिंग / पुनरीक्षण अधिकारियों की टिप्पणियों से सहमत हैं ? Do you agree with the remarks of the reporting / reviewing authorities?

हाँ Yes	नहीं No	
	2001-1-11-1	
	ने स्थिती में उसके व्योरे और का	
e or airrerend	ce or opinion details and	reasons for the same may be given.
ग्रेड (1-10 के प		[14] [16] 전 16] 16] 16] 16] 16] 16] 16] 16] 16] 16]
ii grade (on a	score of 1-10)	
		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
		Signature of Accepting Authority